

August 12, 2020

The Secretary,
BSE Limited
Corporate Services Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400 001

Asst. Vice President,
Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited
Corporate Communication Department
"Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra
(East) Mumbai-400051

Scrip Code: 532529 Scrip Symbol: NDTV

Sub: Submission of newspaper advertisement

Dear Sir/ Ma'am,

Please find enclosed herewith copy of advertisement published in Hindi & English language newspaper, for unaudited financial results of the Company for the quarter ended June 30. 2020.

You are requested to take the same on the records.

Thanking you

Yours faithfully.

For New Delhi Television Limited

Sd/-(Shiv Ram Singh) Company Secretary राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण पीठ, नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएएस) 170/एनडी/2019 कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत आवेदन के मामले में

अधोलिखित के बीच डिमर्जर के मामले में

जीएसजे एन्वो लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 51, हेमकृन्ट कॉलोनी ----अंतरक कम्पनी/ नई दिल्ली-48 में है डिमर्ज्ड कम्पनी आवेदक कम्पनी सं. 1

गुडविल अपार्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड ----अंतरक कम्पनी/ जिसका पंजीकृत कार्यालय ई-82 डिमर्ज्ड कम्पनी आवेदक कम्पनी सं. ग्रेटर कैलाश पार्ट-1, नई दिल्ली में है

तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय 51, हेमकुन्ट कॉलोनी नई दिल्ली-48 में है

अंतरक कम्पनी/आवेदक कम्पनी सं. 1 के प्रतिभृत क्रेडीटरों की बैठक आमंत्रण सूचना का विज्ञापन एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आदेश तिथि 31 जुलाई, 2020 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ (''माननीय अधिकरण'') ने निर्देश दिया है कि जीएसजे एन्वो लिमिटेड (''अंतरक कम्पनी''/डिमर्ज्ड कम्पनी/आवेदक कम्पनी सं. 1'') तथा गुडविल अपार्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (''अंतरिती कम्पनी/परिणामी कम्पनी/आवेदक कम्पनी सं. 2'') तथा उनके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडीटरों के बीच व्यवस्था की योजना में दी गई व्यवस्था पर विचार करने तथा यदि उपयुक्त पया गया तो संशोधनों के साथ अथवा उसके बिना उसे स्वीकार करने के लिये अंतरक कम्पनी/आवेदक कम्पनी सं. 1 के प्रतिभूत क्रेडीटरों की एक बैठक आयोजित की जाये।

उक्त आदेश तथा उसमें दिये गये निर्देश के अनुसार एतदुद्वारा पुनः सुचित किया जाता है कि जीएसजे एन्बो लिमिटेड (''अंतरक कम्पनी''/डिमर्ज्ड कम्पनी/आवेदक कम्पनी सं. 1) के प्रतिभृत क्रेडीटर की बैठक 51, हेमकृन्ट कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 में उसके पंजीकृत कार्यालय में शनिवार, 12.9.2020 को 4.00 बजे अप. में (''बैठक'' आयोजित की जायेगी जिस स्थान, तिथि तथा समय पर प्रतिभत क्रेडीटर से अनरोध है कि उपस्थित रहें।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के साथ पिठत धारा 230(3) के अंतर्गत योजना तथा विवरण की प्रतियाँ आवेदक कम्पनी के उपरोक्त कार्यालय से निःशल्क प्राप्त की जा सकती है।

बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान के लिये अधिकृत व्यक्ति व्यक्तिगत या प्रॉक्सी द्वारा मतदान कर सकते हैं बशर्ते निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रॉक्सी बैठक की निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व हेमकुन्ट कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 में आवेदक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करा दी जाये। प्रॉक्सी का प्रपत्र आवेदक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से अथवा पोस्टल बैलॅट प्रपत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तथा प्रत्युत्तर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैठक के लिये निर्धारित समय से पूर्व प्राप्त की जायेगी।

माननीय अधिकरण ने श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता को बैठक का सभापति नियुक्त किया है। वैयक्तिक सुचना

भी आवेदक कम्पनी के सभी शेयरधारकों को ईमेल द्वारा तथा सीएसजे एन्वो लिमिटेड (''अंतरक कम्पनी/डिमर्ज्ड कम्पनी/आवेदक कम्पनी सं. 1'') को ईमेल तथा भौतिक रूप से भेजी जायेगी।

माननीय अधिकरण के निर्देशानुसार श्री जी साई कृष्ण कुमार, अधिवक्ता को उसमें जारी निर्देश के अनुसार बैठक का वैकल्पिक अध्यक्ष तथा श्री महेन्द्र जैन को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

तिथिः 10.8.2020 स्थानः नई दिल्ली बैठक के लिये नियुक्त अध्यक्ष

> REGD. OFFICE: 612, DEVIKA TOWER, 6, NEHRU PLACE, NEW DELHI-110019 CIN: L51909DL2005PLC135119 E-mail: shriharshraizada@gmail.com, Tel/Fax: +91-11-26219944 Statement of Unaudited Fin. Results for the 1st. Qtr. ended 30th June, 2020

	(Rs. In Quarter ended Yearl				
PARTICULARS	(30/06/2020) (Unaudited)	(31/03/2020) (Au dite d)	(30/06/2019) (Unaudited)	(Audited)	
. Revenue from Operations I. Other Income	0.21 1.16	28.43 5.66	18.66 1.48	65.14 10.51	
II. Total Revenue (I+II)	1.10	34.09	20.14	75.65	
V. Expenses				_	
a) Cost of Materials consumed b) Purchase of stock-in-trade	0.00	0 34.38	0 19.15	73.59	
c) Changes in inventories of finished goods, work in	0.00	04.00	10.10	70.00	
progress and stock-in-trade	0.00	(3.54)	(0.83)	(6.48)	
d) Employee benefits expense e) Finance cost	0.94	1.08	0.6	3.81	
f) Depriciation and amortisation expense	0.05	0.05	0.06	0.23	
g) Other expenses	0.39	1.73	0.91	3.63	
otal Expenses /. Profit/(Loss) before exceptional and extraordinary	1.38	33.70	19.89	74.78	
items and tax (III-IV)	(0.01)	0.39	0.25	0.87	
/I. Exceptional items /II. Profit/(Loss) before extraordinary items and	0	0	0	0	
tax (V-VI)	(0.01)	0.39	0.25	0.87	
III. Extraordinary Items	(5151)	0	0	0	
X. Net Profit/(Loss) before Tax tax (VII-VIII)	(0.01)	0.39	0.25	0.87	
(. Tax Expense: . Current Tax	0.00	0.12	0.05	0.00	
. Deferred Tax	0	0	0	0	
(I. Net Profit/(Loss) for the period from continuing operation (VII-VIII)	(0.01)	0.51	0	0.87	
(II. Net Profit/(Loss) for the period from discontinuing	(0.01)	0.51	0	0.07	
operation	0.00	0.00	0.00	0.00	
(III.Tax expense from discontinuing operations (IV.Net Profit/(Loss) for the discontinuing operations	0	0	0	0	
after Tax (XII-XIII)	0	0	0	0	
(V.Net Profit (Loss) for the period (XI + XIV)	(0.01)	0.51	0.2	0.87	
(VI. Earnings Per Equity Share a) Basic	0.00	0.16	0.64	0.28	
b) Diluted	0.00	0.10	0.04	0.20	
Paid up equity share capital (Face Value of the Share					
shall be indicated) Reserve excluding Revaluation Reserves as per	31.425	31.425	31.425	31.425	
palance sheet of previous accounting year	148.18	148.18	146.98	148.18	
ART-II Information for the first quarter er	nded 30/06/20	20			
PARTICULARS OF SHAREHOLDING					
Public shareholding	405500	405500	405500	405500	
Number of SharesPercentage of Shareholding	125500 39.93%	125500 39.93%	125500 39.93%	125500 39.93%	
Promoters & Promoter group shareholding	00.0070	00.0070	00.0070	00.0070	
a)Pledged / Encumbered					
- Number of Shares - Percentage of shares (as a % of the total	0	0	0	(
shareholding of promoter & promoter group)	0	0	0	(
- Percentage of shares (as a % of the total			_	,	
share capital of the company) b)Non-encumbered	0	0	0	(
- Number of Shares	188750	188750	188750	188750	
- Percentage of shares (as a % of the total	100%	1009/	100%	1000/	
shareholding of promoter & promoter group) - Percentage of shares (as a % of the total	100%	100%	100%	100%	
share capital of the company)	60.07%	60.07%	60.07%	60.07%	
Particulars	Three month	s ended 30/0	6/2020		
INVESTOR COMPLAINTS					
Pending at the beginning of the quarter	NIL				
Received during the quarter Disposed of during the quarter	NIL NIL				
Remaining unresolved at the end of the quarter	NIL NIL				
quality					

No investor complaints were received by the Company during the quarter ended 30th. June, 2020. . The Company has only one revenue segment. Hence, no separate segment wise information of revenue, results and capital employed is given.

Place : NEW DELHI Date : 11/08/2020

MARKTESH TRADING LIMITED (ABHISHEK BAJORIA)

प्रपत्र-'जी' अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण दिवाला और शोधन अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली २०१६ के विनियम ३६ए (1) के अधीन

		कि विवरण				
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	परफेक्ट कलर डिजिटल प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड				
2.	कार्परिट देनदार के निगमन की तिथि	28.04.2003				
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रारऑफ कम्पनीज–दिल्ली				
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74993DL2003PTC120065				
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	दुकान नंबर 2, प्रेम नगर मार्केट, त्यागराज नगर, नई दिल्ली —110003 भारत 92, उद्योग विहार, फेज 6, सैक्टर 37, गुड़गांव —122001, हरियाणा				
6.	कार्पीरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	09.12.2019				
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	12.08.2020				
8.	संहिता की घारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्मता :	विवरण cirp.perfactcolor@gmail.com पर ईमेल भेजकर मांगा जा सकता है				
9.	धारा 29क कें अधीन लागू अग्राह्मता के मानदंडः	दिवाला और शोधन अक्षमता विनियमावली 2016 की धारा 29ए और अन्य प्रावधानों के अनुसार विवरण ईमेल cirp.perfactcolor@gmail.com करके भी प्राप्त किया जा सकता है				
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	27.08.2020				
11,	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	01.09.2020				
12	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	06.09.2020				
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	11.09.2020				
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	06.09.2020				
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	विवरण cirp.perfactcolor@gmail.com पर ईमेल भेजकर मांगा जा सकता है				
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	11.10.2020				
17,	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	इलेक्ट्रॉनिक मोड और स्पीड पोस्ट द्वारा				
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	30.10,2020				
19,		हरीश तनेजा पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-002/IP-N00088/ 2017-18/10229				
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई—मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	हरीश तनेजा 236-एल, मॉडल टाउन, मुखीजा अस्पताल के पास, सोनीपत — 131001 ई—मेल: harishtaneja78@gmail.com				
21.	पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राबार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	236—एल, मॉडल टाउन, मुखीजा अस्पताल के पास, सोनीपत — 131001 ई—मेलः cirp.perfactcolor@gmail.com				
22	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	आगे की जानकारी cirp.perfactcolor@gmail.com				

पर ईमेल करके मांगी जा सकती है

पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-002/IP-N00088/2017-18/10229

236-एल, मॉडल टाउन, मुखीजा अस्पताल के पास, सोनीपत - 131001

हरीश तनेजा

समाधान प्रोफेशनल

12.08.2020

आईएम + कैपिटल्स लिमिटेड CIN: L74140DL1991PLC340407

पंजी. कार्यालय: 817, अंतरिक्ष भवन, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 (c.) 011-42838332

> Email: imcapitalslimited@gmail.com Website: www.imcapitals.com

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कम्पनियों द्वारा साधारण विशेष प्रस्तावों को पारित करने पर स्पष्टीकरण के संदर्भ में साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, साधारण सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 तथा साधारण सर्क्युलर नं. 22/2020 तिथि 15 जून, 2020 तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 द्वारा उत्पन्न संकट के कारण उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 एवं 30 सिंहत समय-समय पर लागू उसके किसी सांविधिक सुधारों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने केवल ईमेल द्वारा सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये पोस्टल बैलॅट सिहत व्याख्यात्मक विवरण के साथ पोस्टल बैलॅट स्चना का प्रेषण पूरा कर लिया है।

सदस्यों को केवल ई–वोटिंग द्वारा ही अपने मताधिकार के प्रयोग का अधिकार है। यह पोस्टल बैलॅट सचना ऐसे सभी सदस्यों को मेल की गई है जिनके नाम 7 अगस्त, 2020 ('कट-ऑफ तिथि') को सदस्यों के रजिस्टर/ लाभभोगी स्वामियों की सुची में शामिल हैं। जिन सदस्यों को पोस्टल बैलॅट प्रपत्र प्राप्त नहीं हो, वे डुप्लिकेट पोस्टल बैलॅट प्रपत्र जारी करने के आवेदन कर सकते हैं अथवा कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.imcapitals.com पर स्थापित किया जायेगा तथा साथ ही साथ उसे बीएसई लिमिटेड में अग्रसारित किया जायेगा।

पोस्टल बैलॅट की मतदान प्रक्रिया से संबंधित किसी भी जिज्ञासा के लिये सदस्य उसे imcapitalslimited@gmail.com पर श्रीमती शिखा मेहरा चावला, कम्पनी सचिव को संबोधित कर सकते हैं।

> बोर्ड के आदेश से शिखा मेहरा चावला कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

DCM HYUNDAI LTD.

CIN: U93090DL1995PLC273604 Regd. Office: 508, 5th Floor, Akash Deep Building, 26-A Barakhamba Road, New Delhi-110 001. Tel. No. (91)11-2331 2267, Fax No. (91)11-2331 3494

E-mail: pawanlakhotia@dcmsr.com, Website: www.dcmhl-hvgpl.com NOTICE INFORMATION REGARDING 26TH ANNUAL GENERAL MEETING . The 26th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) on Tuesday, the 15th September, 2020 at 11.00 AM, in

compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to transact the business set out in the Notice calling the e-AGM. Members will be able to attend the e-AGM through VC/ OAVM or view the telecast at www.evotingindia.com. Members participating through VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum u/s 103

. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the stand alone and consolidated financial statements for the financial year 2019-20, along with Board's report, Auditor's report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the members of the Company whose email address are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents vill also be available on the Company CDSL at www.evotingindia.com.

3. Manner of registering / updating email addresses:

तिथि: 12.08.2020

स्थानः नर्ड दिल्ली

राकेश कुमार

a. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to pawanlakhotia@dcmsr.com/beetalrta@gmail.com.

b. For Demat shareholders - please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhaar Card) to pawanlakhotia@dcmsr.com/beetalrta@gmail.com.

. Manner of casting vote(s) through e-voting:

a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting").

b) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM which will be mailed around 20th August, 2020. The details will also be available on the website of the Company at www.dcmhl-hvgpl.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

c) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("Instal Poll") during Video Conference and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through Insta Poll. d) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the

members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/ Beetal Financial Computer Services Pvt. Ltd. (RTA)/ Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of AGM, which will be mailed around 20th August, 2020. e) The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM. f) Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in

or through Insta Poll during the e-AGM. g) If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting

For **DCM Hyundai Limited Natin Jain**

Director

Place: New Delhi **Date:** 11.08.2020 DIN: 06383628

समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन]

प्रपत्र जी - रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमन्त्रण (चरण 2) [ऋण शोध अक्षमता तथा दिवालिया (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता

1.	कार्परिट देनदार का नाम	एमको लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	19 सितम्बर, 1964
3.		कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, मुम्बई
4.	कापीरेट देनदार की कापीरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	L31102MH1964PLC013011
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : एन-104, एमआईडीसी एरिया, जलगाँव-425003, मह भारत। प्रधान कार्यालय : प्लॉट सं. एफ-5, रोड नं. 28, वागले इण्डस्ट्रियल एस्टेट, ध 400064, महाराष्ट्र, भारत
6.	कापोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	16 अगस्त, 2019 (सी.पी.(आईबी)2849(एमबी)/2018 दिनांक 02 ज 2020 में एमए 3044/2019 में एनसीएलटी मुम्बई के आदेशानुसार)
7.	रुचि की अभिव्यक्ति के आमन्त्रण की तिथि	12 अगस्त, 2020 पूर्व की समाधान योजना जमा प्रक्रिया 31 अक्टूबर, 2019, 12 मार्च, 2020 15 जुलाई, 2020 की रुचि की अभिव्यक्ति के आमन्त्रण विज्ञापन के अनुसार प्र की गयी जो असफल रही।
8.	आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है :	पात्रता मानदण्ड www.emco.co.in पर उपलब्ध विस्तृत रुचि की अभिव प्रक्रिया दस्तावेज में उल्लिखित है अथवा RPEMCO@bdo.in पर ई-मे प्राप्त किया जा सकता है।
9.	धारा 29ए के तहत प्रयोज्य अपात्रता के मानदण्ड उपलब्ध हैं :	आईबीबीआई की वेबसाइट https://ibbi.gov.in/legal-framework/ac उपलब्ध है तथा विस्तृत रूप से रुचि की अभिव्यक्ति प्रक्रिया दस्तावे www.emco.co.in पर उपलब्ध है।
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अन्तिम तिथि	27 अगस्त, 2020
11.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अस्थायी सूची निर्गत होने की तिथि	28 अगस्त, 2020
12.	अस्थायी सूची की आपत्तियाँ जमा करने की अन्तिम तिथि	02 सितम्बर, 2020
13.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अन्तिम सूची निर्गत होने की तिथि	03 सितम्बर, 2020
14.	सम्भावित समाधान आवेदकों हेतु सूचना ज्ञापन पत्र, मूल्यांकन आव्यूह तथा निवेदन के निर्गमन की तिथि	28 अगस्त, 2020
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन आव्यूह, सूचना ज्ञापन पत्र तथा अधिक सूचना हेतु निवेदन प्राप्ति की रीति	इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में साझा किया जायेगा
16.	समाधान योजनाओं के जमा होने की अन्तिम तिथि	27 सितम्बर, 2020
17.	समाधान प्रोफेशनल हेतु समाधान योजना जमा करने की रीति	समाधान योजना हेतु निवेदन में उल्लिखित विवरणों के अनुसार
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण के पास समाधान जमा करने की सम्भावित तिथि	
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	नाम : श्री सुन्दरेश भट आईबीबीआई पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00077/20 18/10162
20.	बोर्ड के साथ पंजीकृत के अनुसार समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता तथा ई–मेल	आईबीबीआई पंजीकृत पता : बीडीओ रीस्ट्रक्चरिंग एडवाइजरी एलएलपी, लेव द रूबी, नॉर्थ वेस्ट विंग, सेनापित बापट रोड, दादर (प.), मुम्बई-400028, आईबीबीआई पंजीकृत ई-मेल : sundareshbhat@bdo.in
21.	समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार हेतु प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई–मेल	पता : बीडीओ रीस्ट्रक्चरिंग एडवाइजरी एलएलपी, लेवल 9, द रूबी, नॉर्थ विंग, सेनापति बापट रोड, दादर (प.), मुम्बई-400028, भारत ई-मेल : RPEMCO@bod.in
22.	अधिक विवरण अग्रलिखित पर या इसके साथ उपलब्ध है	कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट www.emco.co.in पर उ RPEMCO@bod.in पर ई-मेल द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

* यह विज्ञापन एमको लिमिटेड के लेनदार समिति (''सीओसी'') के सदस्यों द्वारा पारित समाधान के अनसार रुचि की अभिव्यक्ति जमा करने के आमन्त्रण के लिए निर्गत किया जा रहा है।

* समाधान योजना जमा संविदा प्रक्रिया अथवा स्वयं प्रक्रिया के नियम एवं शर्तें किसी भी चरण में परिवर्तित/संशोधित/वंचित/निरस्त/विस्तारित या परिवर्द्धित की जा सकती हैं और यह प्रयोज्य कानुनों तथा अनुमोदनों के * रुचि की अभिव्यक्ति जमा करने की प्रक्रिया का नियन्त्रण ईओआई प्रक्रिया दस्तावेज द्वारा किया गया है जो

www.emco.co.in पर उपलब्ध है या RPEMCO@bod.in पर मेल करके प्राप्त किया जा सकता है। * समाधान प्रोफेशनल को लेनदारों की समिति के निर्देश के तहत बिना कोई कारण बताये तथा बिना किसी सूचना या दायित्व के किसी भी चरण में किसी सम्भावित संविदाकार/बोलीदाता को स्वीकार या अस्वीकार या विस्तारित या अयोग्य करने का अधिकार है।

* इस विज्ञापन की सामग्री में समय-सीमा में विस्तार/परिवर्द्धन अन्य विज्ञापन द्वारा निश्चित ही नहीं किया जायेगा, किन्त यह देनदार की वेबसाइट www.emco.co.in के माध्यम से सीधे अधिसूचित किया जा सकता है और इच्छुक/विद्यमान आवेदकों को स्पष्टीकरणों, परिवर्द्धनों, संशेधनों अथवा विस्तारों आदि के विषय में अपडेट रहने के लिए वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहना चाहिए।

* इसमें निर्धारित समय–सीमा सरकार द्वारा लॉकडाउन प्रतिबन्धों में परिवर्तन तथा लॉकडाउन के विस्तार/हटाने के अध्यधीन है स्थान : मुम्बई सुन्दरेश भट

समाधान प्रोफेशनल, एमको लिमिटेड ई-मेल : RPEMCO@bdo.in, वेबसाइट : www.emco.co.in

आईबीबीआई पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00077/2017-18/10162 आईबीबीआई पंजीकृत ई-मेल : sundareshbhat@bdo.in आईबीबीआई का पंजीकृत पता : बीडीओ रीस्ट्रक्चिरंग एडवाइजरी एलएलपी, लेवल 9, द रूबी, नॉर्थ वेस्ट विंग, सेनापति बापट रोड, दादर (प.), मुम्बई-400028, भारत

ट्राइटन कॉर्प लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1990PLCO39989 पंजीकृत कार्यालय : आर-4, इकाई सं.-102, प्रथम तल, खिड़की एक्सटेंशन मेन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 ई-मेल : cs@tritoncorp.in | फोन : 011-49096562

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

						(ईपीएस ड	राटा को छोड़क	र रु. लाख में		
विवरण	T	स्टैण्ड	अलोन		समेकित					
	ति	माही	वारि	र्भक	ि	ामाही	वार्षिक			
	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019 31.03.2020		30.06.2020 31.03.2020		30.06.2019	31.03.2020		
	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित		
प्रचालनों से कुल आय	-	-	-	-	-	-	-	-		
कर पूर्व निबल लाभ/(हानि) तथा एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यमों में (हानि)/लाभ का अंश	(4.16)	(26.24)	(4.58)	(42.54)	(4.41)	(26.51)	(4.61)	(43.25)		
कर एवं अपवादित मदों के पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि)	(4.16)	(26.24)	(4.58)	(42.54)	(4.41)	(66.51)	(4.61)	(83.25)		
अवधि हेतु कुल व्यापक (हानि)/आय	(4.16)	(26.24)	(4.58)	(42.54)	(4.41)	(66.51)	(4.61)	(83.25)		
प्रदत्त इक्विटी पूँजी (रु. 1/- प्रत्येक के फेस वैल्यू)	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90		
पुनर्मूल्यांकन आरक्षियों को छोड़कर आरक्षी (गत लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार)		0		(758.64)				(1,519.03)		
आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रत्येक के) (वार्षिकीकृत नहीं)	-									
मूल डाइल्यूटेड	(0.002) (0.002)	(0.013) (0.013)	(0.002) (0.002)	(0.021) (0.021)	(0.002) (0.002)	(0.033) (0.033)	(0.002) (0.002)	(0.042) (0.042)		
नोट :								Li.		

1. उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएँ), विनियम 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.tritoncorp.in) पर उपलब्ध है।

2. उपर्यक्त स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 तथा इसके निर्गत प्रासंगिक नियमों एवं प्रयोज्य सीमा तक अन्य मान्यताप्राप्त लेखांकन प्रक्रियाओं तथा नीतियों के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (''इण्ड एएस'') के अनुरूप तैयार किया गया है।

बोर्ड के आदेशानुसार

ट्राइटन कॉर्प लिमिटेड के

दिनांक : 11.08.2020 स्थान : नई दिल्ली

सुधीश कुमार रस्तोगी (चेयरमैन

New Delhi Television Limited

Regd. Off.: B 50-A. 2nd Floor, Archana Complex. Greater Kailash - I, New Delhi-110048 Phone: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 | Fax: 2923 1740 E-mail:corporate@ndtv.com | Website:www.ndtv.com



STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL **RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2020**

(INR in Lakhs except per share data)

		Standalone		Consolidated			
	A	В	С	D	E	F	
Particulars	3 months ended (30/06/2020)	Previous year ended (31/03/2020)	Corresponding 3 months ended (30/06/2019) in the previous year	3 months ended (30/06/2020)	Previous year ended (31/03/2020)	Corresponding 3 months ended (30/06/2019) in the previous year	
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	
Total income from operations (net)	4,788	22,233	6,981	7,273	37,317	10,967	
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	442	1,303	899	867	3,180	1,846	
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and extraordinary items)	442	1,303	899	867	3,180	1,846	
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and extraordinary items)	442	1,303	899	689	2,422	1,525	
Total Comprehensive Income for the period	388	1,149	899	622	2,247	1,525	
Equity Share Capital	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579	
Earning Per Share (of INR 4/- each) (for continuing and discontinuing operations) Basic: Diluted:	0.69 0.69	2.02 2.02	1.39 1.39	1.07 1.07	3.76 3.76	2.37 2.37	

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com and www.bseindia.com), and on the Company's website, www.ndtv.com.

Place: New Delhi Date: 10 August. 2020

On behalf of Board of Directors For New Delhi Television Limited Prannoy Roy **Executive Co-Chairperson**



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची - 682015 दूरभाष: 0484 2501306, फैक्स: 0484 2370897, वेबसाइट: www.cochinshipyard.com, CIN: L63032KL1972G0I002414

दिनांक 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही हेतू अलेखापरीक्षित स्टैंडअलॉन और समेकित वित्तीय परिणामों का उद्धरण (रुपए लाख में समेकित स्टेंडअलॉन समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष 30.06.2020 30.06.2019 31.03.2020 31.03.2020 30.06.2020 | 30.06.2019 | 31.03.2020 | 31.03.2020 (लेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) प्रचालनों से कुल आय 33247.73 73685.05 81668.70 342249.39 33247.73 73685.05 81668.70 342249.39 अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर पूर्व, 5823.29 18647.58 18471.71 86342.58 5686.73 18505.17 18329.91 85772.00 असामान्य और/या असाधारण मर्दे) अवधि के लिए कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) 5823.29 18647.58 18471.71 86342.58 5686.73 18505.17 18329.91 85772.00 (असामान्य और/या असाधारण मद के बाद) अवधि के लिए कर के बाद निवल लाभ/(हानि) 4264.91 12025.36 13877.31 63768.75 4143.35 11897.47 13752.98 63200.99 (असामान्य और/या असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के 4228.44 4350.00 12011.17 13538.54 63171.91 11883.28 13414.21 62604.15 लिए शामिल लाभ/(हानि)(कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)) इक्रिटी शेयर पूजी 13154.04 13154.04 13154.04 13154.04 13154.04 13154.04 13154.04 13154.04 आरक्षण (पुनर्मूल्यांकन आरक्षण को छोडकर) 360025.46 359134.31 - पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दशाएं अनुसार । प्रति शेयर (प्रत्येक 10 रुपए के) आय (चालू और बंद किए प्रचालनों के लिए) मूल एवं तनुकृत (रु.) 3.24 48.48 48.05 9.14 10.55 3.15 10.46 9.05

टिप्पणियां:

 उपर्युक्त, सेबी (सूचीबद्ध और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ फाइल किए गए वित्तीय परिणामों का एक विस्तृत उद्धरण है। अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.com में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के वेबसाइट : www.nseindia.com में तथा बीएसई लिमिटेड के वेबसाइट www.bseindia.com में उपलब्ध है।

• उपर्युक्त दिनांक 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को दिनांक अगस्त 10, 2020 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में इसे अनुमोदित किया गया ।

दिनांक 30 जून 2020 को आईपीओ की आय से धन का उपयोग विवरण रुपए करोड में

प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) से आय		961.95
घटाइए : आईपीओ व्यय (कंपनी की शेयर)		21.72
निवल आईपीओ आय		940.23
जोडिए : पुनर्निवेशित व्याज राशि		88.97
कुल आय प्लस ब्याज		1029.20
घटाइए : निम्न केलिए आय का उपयोग		
सामान्य निगमित उद्देश्य	165.23	
नई सूखी गोदी का निर्माण	480.27	
आईएसआरएफ	265.00	910.50
दिनांक 30.06.2020 को शेष धन		118.70
स्थायी जमे में निधि का पार्किंग	118.46	
चालू खाते में निधि का पार्किंग	0.24	
दिनांक 30.06.2020 को धन का पार्किंग		118.70

कृते कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड स्थानः कोच्ची दिनांकः अगस्त 10, 2020 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

23. प्रपत्र "जी" के प्रकाशन की तिथि

तिथ्यः १२ अगस्त २०२०

स्थान: नई दिल्ली

FINANCIAL EXPRESS

Railways suspends regular passenger services indefinitely

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, August 11

THE RAILWAYS HAS stated that all regular passenger train services will remain suspended till further notice, but 230 special trains will continue to be in service.

"This is to bring to the notice of all concerned that as decided and informed earlier as well, regular passenger and suburban train services will continue to remain suspended till further notice," a statement from the Railways said.

"It may be noted that 230 Special Trains, which are running at present, will continue to operate. Local trains in Mumbai, which are presently being run on limited basis only on the requisition of state government, will also continue to run," it said.

The occupancy of special trains is being monitored on a regular basis and additional special trains may be run based on the requirement, the national carrier said.

However, all other regular trains and suburban trains run before the lockdown will remain suspended for the time being, it said.

All special trains 12 pairs running on the Rajdhani

industrial policy

THE ANDHRA PRADESH gov-

ernment has unveiled its

Industrial Policy 2020-23 with

a focus on 10 key sectors. Man-

ufacturing has been given high

priority to create large scale

industrialisation based on com-

petitive advantages of the state

such as long coastline, availability of power and water, infra-

structure and connectivity. At the same time, the focus is also on promoting high value add

and cutting edge industries to be future proof. The 10 sectors in focus include niche areas like

toys and furniture, footwear and

leather, machinery and preci-

sion equipment, aerospace and

menting industrial zoning to

ensure a planned industrial

development and to provide a

'risk-free' investment-friendly

environment for setting up and

operating industries in the state

and minimise the impact on

the environment.

The policy envisages imple-

defence, among others.

The policy aims to drive

unveils new

FE BUREAU

employment.

August 11



However, 230 special trains. which are running at present, will continue to operate

routes since May 12 and 100 pairs operating since June 1 will continue.

The limited special suburban services which began recently in Mumbai to ferry essential services personnel identified by the local authorities will also continue to run, officials said.

Earlier, the national transporter had suspended all services till August 12.

With the suspension of passenger trains indefinitely, Indian Railways has estimated a loss of around ₹40,000 crore in its passenger business for this fiscal.

a span of 24 hours, it said.

The national recovery rate has risen to 69.80%, according to the Union Health Ministy. The actual case load of the country is the active cases (6,39,929) which is only 28.21% of the total positive cases and

they all are under active medical supervision, the ministry said. "With a consistent

and sustained increase in recoveries, the gap between recovered patients and active Covid-19 cases has reached nearly 9.5 lakh. India's test, track and treat strategy is showing the desired result — the gap between percentage of recoveries and percentage of active cases of Covid-19 is growing every day," the ministry said.

Chennai, August 11 **THETAMIL NADU** government on Tuesday asked the Centre to

Covid recovery rate nears 70%, case fatality rate falls below 2%

fund 50% of the cost of the PCR tests the state has been conducting by dipping into the PM-CARES fund. The state chief minister

FE BUREAU

Edapaddi K Palaniswami while participating the video conference meeting with the prime minister Narendra Modi pointed out that Tamil Nadu is continuing its strategy of aggressive, targeted testing and is currently conducting the maximum number of PCR tests in the country.

Tamil Nadu presently has



Tamil Nadu asks Centre to fund 50% of PCR test cost

130 labs for Covid testing with 61 government and 69 private labs, with an average testing capacity of 65,000 tests per day. These tests cost nearly ₹5 crore a day. "I request government of India to fund 50% of the cost of the PCR tests from the PM – CARES fund," he said

As on date, 32,92,958 samples have been tested for Covid-19, out of which 3,02,815 persons were tested positive and 53,099 active cases are in the state currently. A total of 2, 44,675 patients have recovered, which works out to a recovery rate of 80.8%, one of the highest in the country.

Asking the Centre to release the GST compensation for April-June, 2020 early, the chief minister said that as the state had already fully exhausted the State Disaster Response and Mitigation Fund, an ad-hoc grant of ₹1,000 crore may be released from NDRF immediately to fight the pandemic. Releasing pending CMR subsidy of 1,321 crore rupees at this time, will facilitate paddy

procurement, he said.

The state has received ₹512.64 crore from the Centre in two tranches under the Emergency Response and **Health Systems Preparedness** package out of an envelope of ₹712.64 crore allotted to

Tamil Nadu. Palaniswami requested that this package for the Tamil Nadu may be stepped up to

₹3,000 crore. Since both central and state tax revenue will fall short of the budget estimates, to make up for the shortfall, Tamil Nadu may be allocated ₹9,000 crore special grant which will go into combating the Covid and its after effects on the state's economy.

Follow mantra of contact tracing, testing in 72 hours: PM to CMs

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, August 11

PRESS TRUST OF INDIA

SUCCESSFUL IMPLEMENTA-

TION OF containment strat-

egy, aggressive testing coupled

with standardized clinical

management of critical

patients have resulted in

the rise of Covid-19

recovery rate to nearly

70% while the case fatal-

said on Tuesday.

ity rate has fallen below

2%, the Union health ministry

perating and being discharged

from hospitals and home iso-

lation (in case of mild and

moderate cases), the total

recoveries have jumped to

15,83,489 with 47,746

patients getting discharged in

With more patients recu-

New Delhi, August 11

PRIME MINISTER NARENDRA asserted if the virus is defeated in these states, then the country will also emerge victorious in its fight against the pandemic.

At a video conference with chief ministers and representatives of these 10 states, including Bihar, UP, Punjab, Andhra Pradesh, Maharashtra and

Tamil Nadu, Modi said the recovery rate has gone up which, he added, meant that government efforts have proved to be effective. The Centre and states have been able to work together

"Our experience so far is that containment, contact tracing and surveillance are the most effective weapons... with experts of the view that if positive cases are identified within 72 hours of onset, then infection slows down to great extent," the prime minister said.

Modi noted on Tuesday that 10 states account for over 80% of in the Covid-19 fight, he said. active Covid-19 cases, and

Andhra Pradesh UP Cabinet allows suspension of crucial labour law provisons

DEEPA JAINANI Lucknow, August 11

THE UTTAR PRADESH Cabinet has empowered the state government to suspend certain provisions of the UP

and the UP Factories Act 1948. The state cabinet cleared the way for the state government to make necessary amendments to these Acts late

Industrial Disputes Act 1947

last evening by circulation.

The state Cabinet's move comes barely a month after the Union ministry assured the parliamentary standing committee that it will not allow attempts made by some state governments to suspend key labour laws for three years or more or bring in sweeping changes in their labour laws, including extension of work time to beyond eight hours a day.

In May this year, the government had cleared the 'Uttar **Pradesh Temporary Exemption** from Certain Labour Laws Ordinance, 2020' to exempt all establishments, factories and businesses from the purview of all but three labour laws and one provision of another Act, for a period of three years. This was done to revive economic activity that had been reeling under the impact of lockdowns.

Post-Covid fillip: State GST refunds for longer periods central to UP's new industrial policy

DEEPA JAINANI Lucknow, August 11

IN A BID to give a fillip to the state's economy and provide employment to migrant workforce that has returned in the wake of Covid-19 lockdown, the Uttar Pradesh cabinet has announced an accelerated investment promotion policy for the backward regions of Purvanchal (eastern UP), Madhyanchal (central UP) and Bundelkhand.

The policy, which aims to accelerate the pace of industrialisation in these regions, would provide attractive incentives to industrial units for creating growth centres in these areas on

a fast-track mode. According to the policy, those setting up industries under this scheme in Madhyanchal would be eligible for 70% reimbursement of net state goods and services tax (SGST)

for 12 years subject to 200% of capital investment made during the policy period. Units set up in Purvanchal and Bundelkhand would be eligible for 70% reimbursement of net SGST for 15 years subject to 300% of capital investment made during the policy period. The current investment and employment promotion policy provides for a net SGST reimbursement of 70% to eligible industrial units for 10 years only.

RITES LIMITED



(A Government of India Enterprise) CIN: L74899DL1974GOI007227

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30[™] JUNE, 2020

(₹in crores except EPS)

	Particulars	Standalone				Consolidated				
SI. No.		Quarter ended			Year ended	Quarter ended			Year ended	
		30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	30.06.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	30.06.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	
1	Revenue from Operations	322.48	552.57	519.22	2,400.57	335.47	570.70	537.65	2,474.41	
2	Other Income	43.31	43.35	34.29	264.48	43.57	43.54	34.97	260.10	
3	Total Revenue	365.79	595.92	553.51	2,665.05	379.04	614.24	572.62	2,734.51	
4	Net Profit/ (Loss) Before Tax*	82.67	177.42	141.04	822.61	89.51	194.23	154.00	874.35	
5	Net Profit/ (Loss) After Tax*	60.13	131.39	92.62	596.39	64.99	143.93	102.08	633.26	
6	Total Comprehensive Income [Comprising Profit/ (Loss) (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	58.36	128.20	89.52	589.32	63.26	140.55	99.03	626.16	
7	Equity Share Capital	250.00	250.00	200.00	250.00	250.00	250.00	200.00	250.00	
8	Other Equity	0								
9	Earning per share (EPS)** (Note No-6)									
6	Basic (₹)	2.41	5.26	3.70	23.86	2.51	5.56	3.92	24.64	
	Diluted (₹)	2.41	5.26	3.70	23.86	2.51	5.56	3.92	24.64	

1. The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 11" August, 2020. The Statutory Auditors have 6. The Company/Holding Company has issued bonus shares to the shareholders on conducted limited review of the Financial Statements.

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with Stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly financial results are available on the Stock exchange websites www.nseindia.com, www.bseindia.com and on company's website www.rites.com.

3. The Financial Results of the company/group have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015, as amended from time to time

 The Company/Group has considered the possible effects that may result from COVID-19 in preparation of financial results including carrying amount of assets and liabilities. The reduction in operating turnover other than export is mainly due to COVID-19 carrying amount of assets and liabilities. The Company/Group will continue to closely monitor any material changes in future economic conditions due to COVID-19.

The Company/Holding Company opted to exercise the option permitted under section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 as introduced by the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 and has taken 25.168% rate of Corporate Tax in its accounts. Accordingly, the Company/Holding Company has recognized provision for income tax for the

current quarter & Year ended 31" March 2020 and its deferred tax assets/liabilities on

the basis of the above option. 14" August, 2019 as approved by the shareholders in Annual General Meeting held on 30" July, 2019 in the ratio of 1:4 (one bonus share for every four shares). As a result, the paid up share capital of the company/holding company increased to ₹ 250 crore comprising of 25 crore equity shares of ₹ 10/- each. Accordingly, as per requirement of Ind AS 33, the basic and diluted earning per share for all the periods presented has been computed on the basis of new number of shares i.e., 25 crore equity shares of

7. The Company/Holding Company has signed shareholder agreement on 21.05.2020 for acquiring 24% stake in Indian Railway Stations Development Corporation (IRSDC) for ₹ 48 crore (4.80 crore equity shares of ₹ 10/- each), with Rail Land Development.

Authority (RLDA) and IRCON International being the other equity partners. 8. In July 2020, Company/Holding Company exited from BNV Gujarat Rail Private Limited

(joint venture company) by transferring its shares to other joint venture partner. pandemic. However the Company/Group does not expect any material impact on the 9. Figures for the quarter ended 31" March, 2020 are the balancing figures between audited figures of the full financial year and the figure for nine months ended December 31, 2019 which are subject to limited review.

10. The figures for the previous period have been regrouped /reclassified, wherever

For & on behalf of the Board of Directors

Registered Office: RITES Limited, SCOPE Minar, Laxmi Nagar, Delhi - 110092, India

(Rajeev Mehrotra) Chairman & Managing Director/ Chief Executive Officer DIN: 01583143 (www.nseindia.com and www.bseindia.com), and on the Company's website, www.ndtv.com. On behalf of Board of Directors For New Delhi Television Limited Place : New Delhi Prannoy Roy Date: 10 August. 2020 **Executive Co-Chairperson**

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website



605		Quarter	Year ended	
Sr. No.	Particulars	30-06-2020	30-06-2019	31-03-2020
NO.		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income	77,326	1,22,001	4,52,153
2.	Net Profit from ordinary activities before tax	16,633	19,942	75,755
3.	Net Profit for the period after Tax (PAT)	12,574	13,612	55,819
4.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period after tax and other Comprehensive Income after tax)	13,227	13,760	55,134
5.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value per share ₹1/-)	2,354	2,354	2,354
6.	Other Equity		-	3,10,410
7.	Earnings Per Equity Share (Face Value of ₹1/- each) Basic (₹) Diluted (₹)	5.34 5.34	5.78 5.78	23.71 23.71

Notes:

Particulars

Total Income

Profit before tax

Date: 11 August 2020

Profit after tax

Key numbers of Standalone Unaudited Financial Results

(₹ in Lacs Quarter ended Year ended 30-06-2020 30-06-2019 31-03-2020 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 77,319 1,21,984 4,52,090

19,946

13,616

The above is an extract of detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the Company's website viz. www.krblrice.com under the link investor



75,877

55,941



For and on behalf of Board of Directors of

Anoop Kumar Gupta oint Managing Director

16,655

12,596

Regd. Office: 5190, Lahori Gate, Delhi-110006 CIN: L01111DL1993PLC052845, Email: investor@krblindia.com, website: www.krblrice.com, Tel.: +91-11-23968328, Fax: +91-11-23968327

New Delhi Television Limited

Regd. Off.: B 50-A, 2nd Floor, Archana Complex, Greater Kailash - I, New Delhi-110048 Phone: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 | Fax: 2923 1740 E-mail:corporate@ndtv.com | Website:www.ndtv.com



(INR in Lakhs except per share data)

Consolidated

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL **RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2020**

Standalone

17	A	В	С	D	E	F
Particulars	3 months ended (30/06/2020)	Previous year ended (31/03/2020)	Corresponding 3 months ended (30/06/2019) in the previous year	3 months ended (30/06/2020)	Previous year ended (31/03/2020)	Corresponding 3 months ended (30/06/2019) in the previous year
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
Total income from operations (net)	4,788	22,233	6,981	7,273	37,317	10,967
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	442	1,303	899	867	3,180	1,846
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and extraordinary items)	442	1,303	899	867	3,180	1,846
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and extraordinary items)	442	1,303	899	689	2,422	1,525
Total Comprehensive Income for the period	388	1,149	899	622	2,247	1,525
Equity Share Capital	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579
Earning Per Share (of INR 4/- each) (for continuing and discontinuing operations) Basic:	0.69	2.02	1.39	1.07	3.76	2.37
Diluted:	0.69	2.02	1.39	1.07	3.76	2.37

financialexp.epap.in

Place : Gurugram

Dated: 11" August, 2020